

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2391

मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना

2391 श्री तिरुची शिवा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय आगामी वित्त वर्ष में पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा देने की योजना बना रहा है; और
- (ख) ऐसे विभिन्न तरीकों का ब्योरा क्या है जिनके माध्यम से मंत्रालय पर्यटन में संवर्धन की अपेक्षा करता है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं/पहल की हैं और अगले वित्त वर्ष में वह इन कदमों/पहलों के कार्यान्वयन के साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जारी रखेगा:-

- i. स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत थीम आधारित पर्यटक परिपथों का विकास।
- ii. तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन योजना के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए तीर्थ स्थानों का समग्र विकास।
- iii. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/ शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से विकास हेतु देश में 19 प्रतिष्ठित स्थल अभिज्ञात किए गए।
- iv. एक विरासत को अपनाएं परियोजना के अंतर्गत विरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों में पर्यटक सुविधाओं का विकास और रखरखाव।
- v. पर्यटकों की सहायता के लिए टोल फ्री 24*7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन।
- vi. 171 देशों के नागरिकों के लिए पांच उपश्रेणियों में ई-वीजा की सुविधा प्रदान करना यथा ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-चिकित्सा वीजा, ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा और ई-सम्मेलन वीजा।

- vii. अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता कार्यक्रम जो पर्यटकों की सहायता के लिए प्रशिक्षित तथा प्रमाणित पर्यटक सुविधाप्रदाताओं का एक समूह तैयार करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार करने के उद्देश्य से की गई एक अखिल भारतीय डिजिटल पहल है।
- viii. बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रम शक्ति के प्रशिक्षण एवं उन्नयन हेतु सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी) के अंतर्गत कार्यक्रमों का संचालन।
- ix. आरसीएस उड़ान 3 के अंतर्गत अभिज्ञात पर्यटन रूटों का प्रचालन। 46 पर्यटन रूट अभिज्ञात किए गए हैं जिनमें से 21 रूट पर प्रचालन शुरू हो गया है।
- x. देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और अपने देश की यात्रा हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए देखो अपना देश पहल।
- xi. पर्यटन के संवर्धन और विकास हेतु उपयोग के लिए देश में आवास इकाइयों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए नेशनल इंटीग्रेटेड डाटा बेस आफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री (एनआईडीएचआई) पोर्टल।
- xii. सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी विनियमों के संबंध में उद्योग जगत को जानकारी देने और स्टाफ तथा अतिथियों के बीच यह विश्वास पैदा करने कि उक्त आतिथ्य इकाई कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री (एसएएटीएचआई) की शुरुआत की गई।
- xiii. घरेलू तथा विदेशी बाजारों में एक पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन तथा आतिथ्य हितधारकों को वित्तीय सहायता।
